

दिल्ली-एनसीआर में खपा रहे थे 5 रुपये के नकली सिक्के, 3 गिरफ्तार

दिल्ली-एनसीआर में 5 रुपये के नकली सिक्के बनाकर खपाने वाले रैकेट को फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। टीम ने एक महिला व दो युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 50 हजार के करीब 5 रुपये के नकली सिक्के बरामद किए हैं।

नवभारत टाइम्स | Updated: 20 May 2019, 08:36:00 AM IST

[Hindi News](#)

[Samachar](#)

[Haryana News](#)

[Faridabad News](#)

3 Suppliers Of Fake 5 Rupees Coin Arrested



फरीदाबाद

दिल्ली-एनसीआर में 5 रुपये के नकली सिक्के बनाकर खपाने वाले रैकेट को फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। टीम ने एक महिला व दो युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 50 हजार के करीब 5 रुपये के नकली सिक्के बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच को और बड़े पैमाने पर सिक्के बरामद होने की उम्मीद है। इसके लिए दिल्ली व फरीदाबाद में छापेमारी की जा रही है। क्राइम ब्रांच की कोशिश उन फैक्ट्री तक पहुंचने की है, जहां ये सिक्के बनाए जा रहे थे।

क्राइम ब्रांच की इस बड़ी कामयाबी की पुष्टि पुलिस अधिकारियों ने की है, लेकिन छापेमारी जारी होने की वजह से अधिकारी अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। वहीं सूत्रों की मानें तो आरोपी ये सिक्के छोटे-छोटे कागज के गत्तों व बोरों में भरकर लाते थे। इसके बाद बाजार में कम कीमत पर रेजगारी देने की बात कहकर खपाते थे।

आरोपी ने दिल्ली फरीदाबाद, नोएडा में अपने एजेंट भी बनाए हुए हैं। साथ में महिला होने की वजह से किसी का शक भी नहीं जा रहा था। जो नकली सिक्के ये लेकर आते हैं, उसका वजन असली सिक्के से कुछ ज्यादा है। एक फैक्ट्री तक क्राइम ब्रांच पहुंची भी है, लेकिन उसका मालिक अभी फरार है। वह डाई भी अभी क्राइम ब्रांच के हाथ नहीं लगी है, जिससे आरोपी ये नकली सिक्के बना रहे थे। माना जा रहा है कि पुलिस अधिकारी सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस रैकेट का खुलासा करेंगे।

Source: <https://navbharattimes.indiatimes.com/state/punjab-and-haryana/faridabad/3-suppliers-of-fake-5-rupees-coin-arrested/articleshow/69401833.cms>